

Dt. 21.03.2025

To  
The General Manager (Listing),  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, C 1/G Block,  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai.

To  
The General Manager (Listing)  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai.

**Reference: NSE-SCRIP ID: POWERGRID; BSE Scrip Code: 532898**  
**EQ – ISIN: INE752E01010**

**Sub: Acquisition of Fatehgarh II and Barmer I PS Transmission Limited by POWERGRID under TBCB route.**

Dear Sir,

In terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, this is to inform that Power Grid Corporation of India Limited, pursuant to its selection as the successful bidder under Tariff based competitive bidding, has on **21.03.2025** acquired **Fatehgarh II and Barmer I PS Transmission Limited**, the Project SPV to establish "Augmentation at Fatehgarh-II PS, Fatehgarh-IV PS (Sec-II) and Barmer-I PS", on build, own, operate and transfer (BOOT) basis from the Bid Process Coordinator - PFC Consulting Limited (PFCCL).

The project comprises ICT augmentation works at existing and under-construction sub-stations in the State of Rajasthan.

The other information as per relevant provisions of SEBI Master Circular dt. 11.11.2024 are as under:

Sl. No.	Information	Details
1.	Name of the target entity, details in brief such as size, turnover etc.;	Fatehgarh II and Barmer I PS Transmission Limited (FIIBITL)
2.	Whether the acquisition would fall within related party transaction(s) and whether the promoter/promoter group/ group companies have any interest in the entity being acquired? If yes, nature of interest and details thereof and whether the same is done at "arm's length";	No. Prior to acquisition, POWERGRID had no interest as regards related party transaction.
3.	Industry to which the entity being acquired belongs;	Power Transmission

4.	Objects and impact of acquisition (including but not limited to, disclosure of reasons for acquisition of target entity, if its business is outside the main line of business of the listed entity);	FIIBITL has been acquired by POWERGRID pursuant to POWERGRID emerging as the successful bidder under Tariff Based Competitive Bidding. FIIBITL is engaged in the business as that of POWERGRID i.e. transmission of power.
5.	Brief details of any governmental or regulatory approvals required for the acquisition;	<p>FIIBITL was incorporated on 27.12.2024 by the Bid Process Coordinator as per the "Guidelines Encouraging Competition in Development of Transmission Projects" and "Tariff based Competitive-bidding Guidelines for Transmission Service" notified by Ministry of Power (MoP).</p> <p>Requisite approvals were obtained by the Bid Process Coordinator for transfer of FIIBITL.</p> <p>Approvals for Grant of Transmission License and Adoption of Transmission Charges are to be obtained from Central Electricity Regulatory Commission by FIIBITL after the acquisition by POWERGRID.</p>
6.	Indicative time period for completion of the acquisition;	FIIBITL was acquired as per the timelines furnished by Bid Process Coordinator.
7.	Consideration - whether cash consideration or share swap or any other form and detail of the same;	Cash consideration as detailed at S. No. 8 below.
8.	Cost of acquisition and/or the price at which the shares are acquired;	FIIBITL has been acquired for an aggregate value of about Rs. 6.86 Crore including 10,000 equity shares at par at Rs. 10/- each along with assets and

		liabilities of FIIBITL as on the acquisition Date (21.03.2025). However, the acquisition price is subject to adjustment as per the audited accounts of FIIBITL as on the acquisition date.
9.	Percentage of shareholding / control acquired and / or number of shares acquired; and	100%
10.	Brief background about the entity acquired in terms of products/line of business acquired, date of incorporation, history of last 3 years turnover, country in which the acquired entity has presence and any other significant information (in brief).	FIIBITL shall be engaged in the business of transmission of power.  FIIBITL was incorporated on 27.12.2024 by Bid Process Coordinator. FIIBITL is yet to start commercial operation, as such no turnover has been recorded during last 3 years. FIIBITL will be operating in India.

Thanking You,

Yours faithfully,

**(Satyaprakash Dash)**  
**Company Secretary**  
**& Compliance Officer**